रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता (A Government of India Enterprise)

CIN: L74999DL2003GOI118633

RVNL/SECY/STEX/2021

11th November, 2021

BSE Limited

1st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort,

Mumbai-400001

Scrip Code: 542649

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai – 400051

Scrip Code: RVNL

Sub:

Publication of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter & half year ended 30th September, 2021

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached a copy of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of RVNL for the quarter and half year ended 30th September, 2021, as published in Newspapers (English & Hindi).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **Rail Vikas Nigam Limited**

DEEPIKA by DEEPIKA MEHTA

MEHTA Date: 2021.11.11

11:51:03 +05'30'

(Deepika Mehta)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

REAL ESTATE

DLF to expand retail biz; to add 2.3 m sq ft of retail space in NCR, Chennai, Goa

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 10

REALTY MAJOR DLF on Wednesday said the company will develop six new retail properties across major cities comprising 2.3 million square feet area as part of its expansion plan.

DLF will develop three premium neighbourhood plazas Summit Plaza in DLF 5, Gurugram, Midtown Plaza in Moti Nagar, Delhi, and New Gurgaon Plaza in Sector 91,

Airtel, Oracle widen alliance

to over 1 m enterprise users

to bring cloud solutions range

Gurugram. It will also come up with two office retail spaces — The Hub in Chennai and Cyber Park in Gurugram.

DLF will also enter the Goa market with Patto Plaza, a 0.3 million square feet premium shopping mall. "The addition signifies

DLF's continued growth not only in Delhi-NCR but also across India with newer regions such as Chennai and Goa," DLF said in a statement.

In a recent conference call with analysts, DLF's MD (rental

Oracle will leverage

'Nxtra' by Airtel's data

centre network to expand

its cloud presence in India

tel's internal workloads, and

enable customers to adopt cloud

have extended their partnership

to support the growth of India's

digital economy by bringing a

range of industry leading cloud

solutions to more than 1 million

enterprise customers," the state-

ment said. As per estimates, the

number of active Internet users

in India is projected to grow to

over 900 million by 2025, from

622 million in 2020.

"Oracle and Bharti Airtel

and fully benefit from it.



business) Sriram Khattar had indicated the company's plans to expand shopping malls portfolio.

When contacted, Pushpa Bector, executive director-DLF Retail said, this expansion will be completed over the next 2-3 years.

She did not share the investment required develop these six properties.

"We are introducing a new line of growth with the introduction of premium neighbourhood plazas. These will complement our premium residential developments enhancing the quality of our DLF customers," Bector said.

TVS arm launches EV-service platform

KI MOBILITY SOLUTIONS, part

of TVS Automobile Solutions, on Wednesday announced the launch of a comprehensive digital mobility service platform for electric vehicles (EVs), under which it will offer its entire portfolio of solutions and pan-India network to help EV manufacturers jump-start their opera-

tions across the country.

Ki Mobility Solutions, which operates the myTVS brand, the largest integrated multi-brand vehicle service platform, has joined hands with new-age EV manufacturing start-ups and leading OEMs across two-wheelers, three-wheelers, LCVs and passenger cars. **FE BUREAU**

Kalyan Jewellers' Q2 net at ₹69 crore

FE BUREAU

Kochi, November 10

JEWELLERY RETAILER **KALYAN** Jewellers on Wednesday reported a second quarter consolidated net profit of ₹69 crore, with consumer sentiments improving in key markets. The Thrissur-based comhad reported a consolidated loss of ₹136 crore in the Q2 of FY21. Consoli-

dated revenue grew by 61% in Q2FY22 compared to Q2FY21. Total revenue for the quarter was ₹2,889 crore, compared to a total revenue of ₹1,798 crore for the same period during the last financial year.

Standalone net profit for the second quarter is reported at ₹68 crore as against ₹29 crore in Q2FY21. The revenue growth in India was approximately 61%.

Hero FinCorp Limited

Registered office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Corporate office: 9, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Fax: 011-26153913, Tel. No: 011-46044100, Website: www.herofincorp.com CIN: U74899DL1991PLC046774

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the guarter ended September 30, 2021

(All amount in Rupees crores unless otherwise stated)

	(All amount		es uniess otnei	
		Quarte	Year ended	
S. No	Particulars	September 30, 2021	September 30, 2020	March 31, 2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income From Operations	1,061.66	1,007.35	4,091.64
2	Net Profit/ (loss) for the period (before tax and exceptional items)	(133.66)	106.06	90.07
3	Net Profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	(133.66)	106.06	90.07
4	Net Profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	(99.78)	79.30	70.62
5	Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(100.17)	79.72	70.73
6	Paid up Equity Share Capital	127.31	121.54	127.31
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	4,520.64	4,497.78	4,914.23
8	Securities Premium Account	3,946.30	3,480.08	3,946.30
9	Net worth	4,647.95	4,619.32	5,041.54
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	21,416.50	19,682.06	21,816.44
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity ratio	4.61	4.26	4.33
13	Earning per share (of Rs. 10 each)			
	i). Basic :*	(7.84)	6.52	5.78
	ii). Diluted :*	(7.84)	6.22	5.77
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.

*not annualised

Notes:

HeroFinCorp.

- a) The financial results for the quarter ended September 30, 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 09, 2021. A limited review of financial results for the quarter ended September 30, 2021 has been carried out by the Statutory Auditors.
- b) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the guarterly financial results are available
 - on the websites of National Stock Exchange (NSE) of India at www.nseindia.com and the Company at www.herofincorp.com. For the items referred in sub-clauses of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed at www.nseindia.com and at

For and on behalf of the Board

Place- New Delhi Date- November 10, 2021

Standalone

Quarter Ended

www.herofincorp.com.

Sd/ Abhimanyu Munjal

Jt. Managing Director & CEO

Year Ended

Plant-based proteins a mission for Nestle, says Suresh Narayanan

FE BUREAU Pune, November 10

NARAYANAN, **SURESH CHAIRMAN** and managing director, Nestle India on Wednesday said that the area of alternate proteins and plant-based protein is a very serious mission for Nestle. "One of our largest brands Maggie Noodles is entirely plant-based. It is a derivative from wheat, spices and ingredients that genuinely make this a proposition that can be linked directly to the farm, sourcing from farms and through technologies that can develop into cost effective platforms of nutrition delivery,"he said.

Delivering the keynote address at 'The Smart Protein Virtual Summit 2021' organised by the Good Food Institute India, he said Nestle globally has about 12 R&D accelerators, which are basically centres that look at plantbased protein technologies, which can be efficaciously rolled out in terms of relevant and robust products. One of these is located at Manesar in India. Narayanan said that the

Nestle India's chairman and MD said Nestle globally has about 12 R&D accelerators, which are basically centres that look at plant-based protein technologies

company was looking at strengthening its existing portfolio in the foods business as far as plant-based proteins are concerned and also take a hard look at the dairy business to reduce greenhouse gas emissions."We have Wunda, a peanut-based drink that is being launched in Europe, or coffee creamers and icecreams that have been launched in some parts by Nestleacross the world. But we would look at customising products to Indian taste. To me, creating a burger that has got almost a meat-like taste and texture is an opportunity, but a larger opportunity for me is to create protein-based products that can be fitted into the Indian repertoire of cuisines and is familiar for them in terms of taste, texture and culture," he said.

second quarter stood at

pared to ₹1,654.25 crore in

the year-ago period, it added.

₹1,591.92 crore as compared to ₹1,439.35 crore in

the year-ago quarter, the

impaired by severe opera-

tional headwinds in all key

markets and a surge in

company said.

Profitability

expenses, it added.

Total expense stood at

रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता (A Government of India Enterprise)

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi -110066

E-mail: investors@rvnl.org Website: www.rvnl.org; CIN: L74999DL2003G01118633

Quarter Ended

Consolidated

Half Year Ended

STATEMENT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021 (Rs. in crore)

Half Year Ended

Year Ended

SI			Quarter Lilue	u	man roc	ii Liiucu	Teal Lilueu	· ·	uaitei Liiueu		Hall IGa	Lilucu	Teal Lilueu
No	Darticulare	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021
5775		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Income :												
(a	Revenue from operations	4,025.82	3,869.10	3,182.57	7,894.93	6,093.40	15,403.65	4,025.82	3,869.10	3,182.57	7,894.93	6,093.40	15,403.76
	Other income	55.34	62.64	66.00	117.98	121.96	326.75	55.69	62.70	66.02	118.39	121.99	309.32
-	tal Income	4,081.16	3,931.74	3,248.57	8,012.91	6,215.36	15,730.40	4,081.51	3,931.80	3,248.59	8,013.32	6,215.39	15,713.08
2.	The state of the s												
_	Expense of Operation	3,719.60	3,575.40	2,942.32	7,294.99	5,634.36	14,229.58	3,719.10	3,575.08	2,942.32	7,294.18	5,634.36	14,229.41
- Inchise Contract	Employee benefits expenses	53.33	50.93	53.69	104.26	104.57	207.76	53.65	51.00	53.69	104.65	104.57	207.78
-	Finance costs	5.69	6.72	6.62	12.41	14.35	28.27	5.69	6.72	6.62	12.41	14.35	28.27
-	Depreciation, amortisation & impairment expense	4.70	4.61	5.40	9.32	13.41	22.92	4.70	4.61	5.40	9.32	13.41	22.92
_	Other expenses	25.93	14.65	22.04	40.58	48.48	86.20	25.95	14.67	22.04	40.61	48.48	86.71
_	Profit/(Loss) from operations before Share of Profit	3,809.25	3,652.31	3,030.07	7,461.56	5,815.17	14,574.73	3,809.09	3,652.08	3,030.07	7,461.17	5,815.17	14,575.09
3.	/ (Loss) of Joint Ventures Exceptional items and tax (1-2)	271.91	279.43	218.50	551.35	400.19	1,155.67	272.43	279.72	218.52	552.15	400.22	1,137.99
4.	Share of Profit / (Loss) of Joint Ventures			79	959			56.80	20.64	15.01	77.44	12.83	(0.44)
5.	Profit/(Loss) from operations before Exceptional items and tax (3+4)	271.91	279.43	218.50	551.35	400.19	1,155.67	329.22	300.36	233.53	629.59	413.05	1,137.55
6.	Exceptional items (Net)												
7	Profit / (Loss) from operations before Tax (5 + 6)	271.91	279.43	218.50	551.35	400.19	1,155.67	329.22	300.36	233.53	629.59	413.05	1,137.55
8.	Tax Expense			3	a :								
(a	Current Tax	61.96	76.36	47.79	138.32	88.99	226.30	62.09	76.39	47.79	138.48	88.99	226.31
(b	Earlier Year Tax	27	- 8	2	2 355	0.7%	(6.44)	100	\$ 3/S	9 45 1	:=	8	(6.44)
(C	Deferred Tax	(12.11)	(8.29)	(2.04)	(20.40)	(4.70)	(4.73)	(12.11)	(8.29)	(2.04)	(20.40)	(4.70)	(4.73)
9	Net Profit / (Loss) for the period/year (7 - 8)	222.06	211.36	172.75	433.43	315.90	940.54	279.24	232.26	187.78	511.51	328.76	922.41
10	. Other Comprehensive Income												
(a	Items that will not be reclassified to Profit and Loss	(0.62)	0.27	0.18	(0.35)	(0.09)	0.71	(0.62)	0.27	0.18	(0.35)	(0.09)	0.71
(b	Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit and Loss	0.14	(0.06)	(0.02)	0.08	0.02	(0.12)	0.14	(0.06)	(0.03)	0.08	0.02	(0.12)
(c	Remeasurement of Investment of equity instrument (net of tax)	920	2	-21 -21	(1 <u>4</u> 2)	141	0.03	20	43	3	(4)	28	0.03
(d	Share of Comprehensive income of Joint Ventures		- 3	- 1		9.	- 8	- 6	- 30			- 8	
11	. Total Comprehensive Income/(loss) for the period/year	221.58	211.57	172.91	433.16	315.83	941.17	278.76	232.47	187.93	511.24	328.69	923.03
12	. Net Profit/(Loss) is attributable to :												
(a	Owners of the Parent	222.06	211.36	172.75	433.43	315.90	940.54	279.24	232.26	187.78	511.51	328.76	922.41
(b	Non Controlling Interest	(4)		#0	(943)	79	- 84	- 20	- 1	9		98	- 4
-	. Other Comprehensive Income is attributable to :												
-	Owners of the Parent	(0.48)	0.21	0.16	(0.27)	(0.07)	0.62	(0.48)	0.21	0.15	(0.27)	(0.07)	0.62
-	Non Controlling Interest		12	18				1	20	6	-		12
14	. Total Comprehensive Income is attributable to :												
(a	Owners of the Parent	221.58	211.57	172.91	433.16	315.83	941.17	278.76	232.47	187.93	511.24	328.69	923.03
-	Non Controlling Interest	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
-	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10 per share)	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02
	. Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) (As per Audited Balance Sheet)	-1-1-1-1-1		-10-30-30-3		-1144199	2,880.56	- January Control		-122234	31242142		3,481.87
17	. Earnings Per Equity Share (Face Value of Rs. 10 per share)								3				
(a) Basic (in Rupees)	1.07	1.01	0.83	2.08	1.52	4.51	1.34	1.11	0.90	2.45	1.58	4.42
-	Diluted (in Rupees)	1.07	1.01	0.83	2.08	1.52	4.51	1.34	1.11	0.90	2.45	1.58	4.42
	toe ·	1.01	1.01	0.00	2.00	1.02	4.01	1.04	tell	0.50	2.70	1.00	7.74

Q2 RESULTS

Birla Corp posts 49% decline in profit

MPBIRLAGROUP'S cement from operations during the firm Birla Corporation (BCL) on Wednesday reported a ₹1,697.84 crore as com-49% decline in consolidated net profit at ₹85.55 crore in the September quarter, hit by operational headwinds in key markets and higher expenses, mainly due to coal shortage. The company had posted a consolidated net profit of ₹166.62 crore in the same period of the last fiscal, BCL said in a regulatory filing.

Consolidated revenue

Oil India's net NIIT September profit more than quarter profit doubles to ₹504 cr doubles

STATE-OWNED OIL INDIA on SKILLS AND TALENT Wednesday reported more than doubling of its September 2021 quarter net profit, on the back of a surge in oil and gas prices. Net profit stood at ₹504.46 ₹52.4 crore in the Septem-

> The company had registered a net profit of ₹26 crore in the year-ago period.

Net revenue was higher by 44% at ₹314.2 crore in the quarter under review compared to ₹218.9 crore in the year-ago period. PT

Notes:

Dated: 10.11.2021

PTI

development company NIIT on Wednesday said its consolidated net profit has more than doubled to

ber 2021 quarter.

1) The above Standalone/ Consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 10th November, 2021

2) As required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (as Amended) the Statutory Auditors have conducted a

limited review of the above financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2021. 3) The standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the

Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as Amended and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. 4) The Company/ Group operates in a single reportable operating Segment' Development of Rail

Infrastructure'. Hence there are no separate operating segments as per with Ind AS 108 -Operating Section 115BAA has been inserted in the Income Tax Act. 1961 vide Taxation laws (Amendment) Ordinance.

Place : New Delhi

2019 issued on 20th September 2019 which enables domestic companies to exercise a non-reversible option to pay corporate

tax at reduced rates effective 1st April 2019 subject to certain conditions. The Company has not exercised this option yet. 6) The company's operations were impacted by 2nd wave of Covid-19 pandemic; despite this impact company has registered an increase of 26.5% in operating turnover over the corresponding quarter ended 30th September 2020. The Company is

positive on the long term business outlook as well as its financial position. However, Company will continue to monitor developments to identify significant uncertainties relating to business operations in future periods. 7) Wherever necessary figures for the previous periods/year have been regrouped/reclassified /recasted to conform to the

classification of the current period/Year. 8) The above is an extract of the detailed format of Quarter & Half Yearly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The complete format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on Company's website www.rvnl.org.

New Delhi

For and on behalf of Rail Vikas Nigam Limited Pradeep Gaur Chairman & Managing Director DIN:07243986

financialexp.epap.in

crore, or ₹4.65 a share, in July-

September 2021, compared

with ₹238.95 crore, or ₹2.20 per

share a year ago, the company

said in a statement. This was

mainly because the price the

firm got for crude oil produced

rose to \$71.35 per barrel in the

second quarter of the current

fiscal from \$42.74 last year. PTI

expand its cloud presence in India. Further, Airtel Business will offer Oracle Cloud Infrastructure to its million-plus enterprise customers, according to a statement. Oracle and Airtel would also set up a Cloud Centre of Excellence in Gurgaon with a dedicated team of specialists from both organisations. These

experts will help modernise Air-

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, November 10

ORACLE AND BHARTI Airtel

have extended their partnership

to drive growth of digital economy, by bringing a slew of cloud

solutions to over 1 million

Airtel's data centre network to

Oracle will leverage 'Nxtra' by

enterprise customers.

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 10 नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजधानी की तिहाड़ जेल की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चिंता जताई। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की एक पीठ यूनिटेक प्रमोटर्स के चंद्रा बंधुओं और तिहाड़ के स्टाफ के बीच सांठगांठ मामले की सुनवाई कर रहीं थी। जजों ने कहा कि जेल प्रबंधन के बारे में दिल्ली के पुलिस आयुक्त की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

पीठ ने पिछले महीने इस मामले में चंद्रा बंधुओं से सांठगांठ करने वाले जेल अधिकारियों के निलंबन का आदेश दिया था। इन अधिकारियों ने चंद्रा बंधुओं को तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए जेल परिसर के भीतर से अपना कारोबार चलाने की इजाजत दी थी। न्यायाधीशों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जेल के भीतर हत्या और हिंसा की घटनाओं के बारे में मीडिया की खबरें देखी हैं। तत्काल सुधार पर जोर देते हुए जजों ने जेल की स्थिति को अस्वीकार्य बताया।

पीठ ने गृह मंत्रालय के सचिव को जेल सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने गृह मंत्रालय से पिछले महीने उसकी कार्ययोजना का विवरण मांगा था। जजों ने गृह सचिव को तीन हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। युनिटेक प्रमोटर्स के अजय चंद्रा और संजय चंद्रा दोनों ही तिहाड़ में थे। बाद में यहां उनकी चिंताजनक गतिविधियों को देखते हुए पीठ ने दोनों को मुंबई की अलग-अलग जेलों में भेजने का आदेश दिया था। दोनों को घर देने के नाम पर हजारों लोगों से अरबों रुपए की ठगी करने के आरोप में 2017 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति और पिता रमेश चंद्रा को भी गिरफ्तार किया गया था।

कांग्रेस की याचिका पर मि कोर्ट में सुनवाई आज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 10 नवंबर।

त्रिपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने के राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की फरियाद सहित दायर तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। पार्टी और उसकी सांसद सुष्मिता देव ने एक याचिका दायर कर आगामी नगर निकाय चुनाव में पार्टी के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की सर्वोच्च अदालत से गृहार लगाई है। पार्टी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तटस्थ और निष्पक्ष जांच दल गठित करने की

भी मांग की है। कि राज्य में होने वाले किसी भी भागीदारी के लिए अनुकूल

परिस्थितियां बनाए रखना जरूरी है। पार्टी का आरोप है कि राज्य में आपराधिक तत्त्वों के एक समूह द्वारा लगातार हमले किए जाने के कारण याचिकाकर्ता के लिए अपने चुनाव अभियान को जारी रखना बेहद मुश्किल हो रहा है।

याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता और उनके समर्थकों के वाहनों को गुंडों द्वारा क्षतिग्रस्स किया जा रहा है। अब तक कम से कम तीस कारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है और उनकी संपत्तियों के साथ-साथ पार्टी दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई है। इन हरकतों का मकसद टीएमसी को आगामी शहरी निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकना याचिका में पार्टी ने कहा है लगता है। ये चुनाव 25 नवंबर को होंगे। पार्टी ने याचिका में कहा चुनाव में सभी दलों की निर्बाध है कि राज्य सरकार ने हिंसा के प्रति अपनी आंखें मृंद रखी हैं।

तपेदिक उन्मूलन में आई बाधाओं को दूर करने की जरूरत: पवार

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 10 नवंबर।

तपेदिक उन्मूलन की निर्धारित समय सीमा से पहले हमारे पास केवल 37 महीनों का समय है। हमें कार्य में तेजी लाने, कोरोना के कारण पैदा हुई बाधाओं को दूर करने और नवाचारी समाधानों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने बुधवार को 2025 तक तपेदिक उन्मूलन की रणनीतियों के बारे में आयोजित विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता के

दौरान यह बात कही। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी एक बयान के अनुसार पवार ने कहा कि राष्ट्रीय क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम के तहत किए गए प्रयासों के फलस्वरूप समय पर निदान, उपचार और परिणामों में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

NOTICE

The General Body Meeting of NSPB will be held on Sunday, the 19th December, 2021 at NSPB's Karkardooma Eye Hospital, 8-B Institutional Area, Karkardooma, Delhi-92 at 11.00AM. Under Society's Constitution vide Rule IV-The General Body shall consists of all members enrolled as direct members at National Headquarters of the Society and representatives of branches as on 31st December of the year preceding the date of the General Body meeting of the National Body are requested to attend. Election for 21 members to the Governing Council will be held at the venue of the meeting from 11.30 AM as the term of the present Governing Council is over. Nomination Forms duly proposed and seconded by the valid members be sent in a sealed cover to NSPB's office, Room No.122, Dr. R.P. Centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi. Last dates for the receipt of the nomination at NSPB's Office is 7.12.2021 (Tuesday) by 3.00 P.M, Scrutiny of nomination and announcement of eligible candidate is 8.12.2021(Wednesday) at 3.00 P.M. and for withdrawal is 9.12.2021(Thursday) by 3.00 P.M. Members are requested to send their email id to NSPB's email id sightforall@gmail.com

(NILESH KUMAR) ELECTION OFFICER

सैपइन्फ्रा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बी-48/2, सैनिक नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 सीआईएन : U72200DL2016PTC302201

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र पीठ, दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपखण्ड (5) के उपबंध (क) के मामले में

सैपइन्फ्रा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालयः टॉवर-ए, प्लॉट नं. 6011-6012, एमार डिजिटल ग्रीन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-61, गुरुग्राम, हरियाणा-122014 पर है।

एतद्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केन्द्र सरकार जिसकी शक्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को प्रदत्त है, के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''दिल्ली राज्य से'' से ''हरियाणा राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए शनिवार, 27 तारीख, 2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पष्टि की माँग की गयी है जिसे इसके शेयरधारकों द्वारा अनमोदित किया

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय का पता : बी-48/2, सैनिक नगर, नवादा, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 (वर्तमान पता) आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से (निदेशक) डीआईएन : 07486070

किशोर ने नाबालिग का अपहरण कर रचाई शादी

विवाह करने के आरोप में बुधवार को 17 की रिश्तेदार थी।

इरोड (तमिलनाडु), 10 नवंबर (भाषा)। वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया है। पुलिस स्थानीय पुलिस ने नाबालिंग लडकी का ने बताया कि एक छात्रा का कुछ दिनों पहले कथित रूप से अपहरण कर उसके साथ किशोर ने अपहरण कर लिया। लडकी किशोर

Hero FinCorp Limited

HeroFinCorp.

Registered office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Corporate office: 9, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Fax: 011-26153913, Tel. No: 011-46044100, Website: www.herofincorp.com CIN: U74899DL1991PLC046774

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended September 30, 2021

(All amount in Rupees crores unless otherwise stated)

		Quarte	Year ended		
S. No	Particulars	September 30, 2021	September 30, 2020	March 31, 2021	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income From Operations	1,061.66	1,007.35	4,091.64	
2	Net Profit/ (loss) for the period (before tax and exceptional items)	(133.66)	106.06	90.07	
3	Net Profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	(133.66)	106.06	90.07	
4	Net Profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	(99.78)	79.30	70.62	
5	Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(100.17)	79.72	70.73	
6	Paid up Equity Share Capital	127.31	121.54	127.31	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	4,520.64	4,497.78	4,914.23	
8	Securities Premium Account	3,946.30	3,480.08	3,946.30	
9	Net worth	4,647.95	4,619.32	5,041.54	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	21,416.50	19,682.06	21,816.44	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	
12	Debt Equity ratio	4.61	4.26	4.33	
13	Earning per share (of Rs. 10 each)		Ĭ		
	i). Basic :*	(7.84)	6.52	5.78	
i	ii). Diluted :*	(7.84)	6.22	5.77	
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	
15	Debenture Redemption Reserve	- 1	-	-	
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	
*not	annualicad			(4	

*not annualised **Notes:**

Place- New Delhi

Date- November 10, 2021

- The financial results for the quarter ended September 30, 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 09, 2021. A limited review of financial results for the quarter ended September 30, 2021 has been carried out by the Statutory Auditors.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of National Stock Exchange (NSE) of India at www.nseindia.com and the Company at www.herofincorp.com.
- For the items referred in sub-clauses of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed at www.nseindia.com and at www.herofincorp.com.

For and on behalf of the Boar

Sd/ Abhimanyu Munjal Jt. Managing Director & CEO फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

नियाबी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू45201डीएल2006 पीटीसी147603) जिसका पंजीकृत कार्यालय खसरा न. 382, दूसरा तल, 100 फीट रोड, एम.जी. रोड, गांव घिटोरनी, नई दिल्ली—110030 में है के मामले में

आवेदक / याचिकाकर्ता

डीआईएनः 07213148

एतदद्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 कें तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेत् पृष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 2 नवम्बर, 2021 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हों, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली—110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (बौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

> कृते नियाबी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड नरेन्द्रा सिंह निदेशक

10 नवम्बर, 2021 नई दिल्ली

DELTA LEASING AND FINANCE LIMITED CIN: L67120DL1983PLC016990 Registered Office: 55 F.I.E. PATPARGANJ, INDUSTRIAL AREA, DELHI 110092 Website: www.deltaleasing.in I Email: info@deltaleasing.in **EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31st**

Amount in Rup											
S. No.	Particulars	Financial Year Ended 31.03.2021 Audited	Financial Year Ended 31.03.2020 Audited								
1	Total income	54.91	50.03								
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.94	-41.76								
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.94	-41.76								
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.94	-41.76								
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)		930.05								
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs 10/-)	1,160.23	1,160.23								
7	Earning Per Share (of Rs 10/- each) Basic and diluted (not annualised)	0.00	0.00								
Note	a:										

MARCH, 2021

- 1) The above results were taken on record by the Board of Directors in the Meeting held on 08.11.2021
- The above is an extract of the detailed format of result for financial year ended on 31st March, 2021 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the company's website at www.deltaleasing.in

समेकित

By order of the Board For Delta Leasing and Finance Limited

> Renu Jindal Managing Director DIN:01843439

रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता (A Government of India Enterprise)

रेल विकास निगम लिमिटेड

Place: Delhi

Date: 09.11.2021

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली - 110066

ईमेल: investors@rvnl.org, वेबसाइट : www.rvnl.org सीआईएन: L74999DL2003GOI118633,

30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही हेतु (एकल एवं समेकित) अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू, करोड, में)

룤.	Posterior :	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	
нį.		30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021	
- 88		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	
1.	The state of the s	1 205 00	0.000.10	0.100.57	7.004.00	0.000.40	45 400 05	1.005.00	2 222 10	0.400.57	7.004.00	0.000.40	15 100 70	
		4,025.82	3,869.10	3,182.57	7,894.93	6,093.40	15,403.65	4,025.82	3,869.10	3,182.57	7,894.93	6,093.40	15,403.76	
-	अन्य आय	55.34	62.64	66.00 3,248.57	117.98	121.96	326.75 15,730.40	55.69	62.70 3,931.80	66.02 3,248.59	118.39 8,013.32	121.99 6 215 30	309.32	
	मुल आय खर्चे	4,081.16	3,931.74	3,240.57	8,012.91	6,215.36	10,730.40	4,081.51	3,931.00	3,240.39	0,013.32	6,215.39	15,713.08	
(क)		3,719.60	3,575.40	2,942.32	7,294.99	5,634.36	14,229.58	3,719.10	3,575.08	2,942.32	7,294.18	5,634.36	14,229.41	
_	कर्मचारी लाभ व्यय	53.33	50.93	53.69	104.26	104.57	207.76	53.65	51.00	53.69	104.65	104.57	207.78	
	वित्तीय खर्च	5.69	6.72	6.62	12.41	14.35	28.27	5.69	6.72	6.62	12.41	14.35	28.27	
	विमूल्यन, परिशोधन और हानि व्यय	4.70	4.61	5.40	9.32	13.41	22.92	4.70	4.61	5.40	9.32	13.41	22.92	
-) अन्य खर्च	25.93	14.65	22.04	40.58	48.48	86.20	25.95	14.67	22.04	40.61	48.48	86.71	
क्	नुल खर्च	3,809.25	3,652.31	3,030.07	7,461.56	5,815.17	14,574.73	3,809.09	3,652.08	3,030.07	7,461.17	5,815.17	14,575.09	
	संयुक्त उद्यमों के लाम/(हानि) के हिस्से से पहले प्रचालनों से लाम/(हानि) असाघारण मदों और कर (1- 2)	271.91	279.43	218.50	551.35	400.19	1,155.67	272.43	279.72	218.52	552.15	400.22	1,137.99	
4.	संयुक्त उद्यमों के लाभ / (हानि) का हिस्सा		-	-	-		-0	56.80	20.64	15.01	77.44	12.83	(0.44)	
5.	असाधारण वस्तुओं और कर (3+4) से पहले प्रचालनों से लाभ / (हानि)	271.91	279.43	218.50	551.35	400.19	1,155.67	329.22	300.36	233.53	629.59	413.05	1,137.55	
6.	A STATE OF THE STA		270.40	212.50		100.40			220.20	222.50	222.50	410.00	1 107 55	
7.	कर पूर्व प्रचालनों से लाभ / (हानि) (5 + 6)	271.91	279.43	218.50	551.35	400.19	1,155.67	329.22	300.36	233.53	629.59	413.05	1,137.55	
-		61.96	76.36	47.79	138.32	88.99	226.30	62.09	76.39	47.79	138.48	88.99	226.31	
(ক) (ख)		01.90	70.30	41.19	130.32	00.00	(6.44)	02.09	70.39	47.79	130.40	00.99	(6.44)	
_	विलम्बित कर	(12.11)	(8.29)	(2.04)	(20.40)	(4.70)	(4.73)	(12.11)	(8.29)	(2.04)	(20.40)	(4.70)	(4.73)	
	Land the state of	222.06	211.36	172.75	433.43	315.90	940.54	279.24	232.26	187.78	511.51	328.76	922.41	
—														
	आइटम जिन्हें लाम और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(0.62)	0.27	0.18	(0.35)	(0.09)	0.71	(0.62)	0.27	0.18	(0.35)	(0.09)	0.71	
-) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.14	(0.06)	(0.02)	0.08	0.02	(0.12)	0.14	(0.06)	(0.03)	0.08	0.02	(0.12)	
25.55	इक्विटी साधन के निवेश का पुनर्माप (कर का शुद्ध)			-			0.03	-				-	0.03	
(घ)	संयुक्त उद्यमों की व्यापक आय का हिस्सा			1 12		*	20)	- 1	12	20			0.20	
11.	. अवधि/वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	221.58	211.57	172.91	433.16	315.83	941.17	278.76	232.47	187.93	511.24	328.69	923.03	
12.	. निवल लाम / (हानि) के कारण है :		3								2			
(क)	मूल के स्वामी	222.06	211.36	172.75	433.43	315.90	940.54	279.24	232.26	187.78	511.51	328.76	922.41	
(ख)	गैर नियंत्रित ब्याज		(#)	-			#8		194	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·		
13.	. अन्य व्यापक आय के कारण है:		13					y y				9 9		
(ক)	मूल के स्वामी	(0.48)	0.21	0.16	(0.27)	(0.07)	0.62	(0.48)	0.21	0.15	(0.27)	(0.07)	0.62	
(ख)	गैर नियंत्रित ब्याज	-	(+)	64	18		. **	-	14	49		-		
14.	. कुल व्यापक आय के कारण है:													
_	मूल के स्वामी	221.58	211.57	172.91	433.16	315.83	941.17	278.76	232.47	187.93	511.24	328.69	923.03	
(ख)	गैर नियंत्रित ब्याज	-		12	-	- 4	-87	-		-		- 4		
15.	. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर 10 रुपये का अंकित मूल्य)	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	2,085.02	
16.	. अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) (लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार)	di.					2,880.56						3,481.87	
4												,	-	
17.	. आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर 10 रुपये का अंकित मूल्य)	1	15	7	1									
	. आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर 10 रुपये का अंकित मूल्य) मूल (रुपयों में)	1.07	1.01	0.83	2.08	1.52	4.51	1.34	1.11	0.90	2.45	1.58	4.42	

- उपरोक्त पृथक्कृत / समेकित वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा उनकी दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को सम्पन्न बैठक में किया गया है।
- 2) जैसाकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत अपेक्षित है, कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही हेत उपरोक्त वित्तीय परिणामों का सीमित पुनरीक्षण किया गया है।
- पृथक्कृत / समेकित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) के निबन्धनों और यथासंभव अन्य मान्य लेखांकन पद्धतियों और नीतियों के अधीन अधिसूचित है।
- कम्पनी / समूह एक एकल प्रतिवेदनीय प्रचालन खंड 'रेल अवसंरचना का विकास' में परिचालन करता है। अतः आईएनडी एएस 108 — प्रचालन खंड के अनुसार कोई पृथक प्रचालन खंड नहीं है।
- 5) दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को जारी कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आय कर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीएए अंतर्वेशित की गई है, जो घरेलू कम्पनियों को कुछ शर्तों के अधीन, 01 अप्रैल, 2019 से प्रमावी घटी दरों पर कार्पोरेट टैक्स
- का भुगतान करने के गैर-परिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाती हैं। कम्पनी ने अभी तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया है।
- 6) कंपनी का प्रचालन कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित हुए हैं; इस प्रभाव के बावजूद कंपनी ने 30 सितम्बर 2020 को समाप्त सांगत तिमाही के मुकाबले प्रचालन कारोबार में लगभग 26.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी दीर्घकालिक व्यावसायिक परिदृश्य के साथ-साथ अपनी वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक है। तथापि, कम्पनी भावी काल में व्यवसायिक प्रचालनों के साथ संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं की
- पहचान के लिए घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेगी। पूर्व अवधियों / वर्ष के आंकड़े, चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, जहां आवश्यक है, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत /
- पुनरव्यवस्थित किए गए हैं। 8) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही एवं छमाही हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते रेल विकास निगम लिमिटेड

प्रदीप गौड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 07243986

स्थानः नई दिल्ली तिथि : 10.11.2021

www.readwhere.com